

PRESS NOTE AZAMGARH RANGE

जनपद-मऊ प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 05.01.2023



एसपी कार्यालय में पीडित को उसकी मोबाइल प्रदान करते सीओ धनंजय मिश्रा व अन्य पुलिसकर्मी • जाबटण

साइबर सेल द्वारा 101 गुमशुदा मोबाईल लगभग 16 लाख कीमत की बरामद कर सम्बन्धित मोबाइल फोन स्वामियों को सुपुर्द किया गया:-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय द्वारा गुमशुदा मोबाईल के संबन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु साइबर सेल जनपद-मऊ को प्रार्थना पत्र के निस्तारण एवं गुमशुदा मोबाईल फोन की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल जनपद-मऊ द्वारा गुमशुदा मोबाईल फोन के संबन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण एवं मोबाईल की बरामदगी हेतु नियमानुसार लगातार प्रयास किया जाता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप 101 आवेदकगण के गुमशुदा 101 मोबाईल फोन जिनकी कीमत लगभग 16 लाख रूपये है, जिन्हे नियमानुसार कार्यवाही करते हुए बरामद किया गया। बरामदशुदा मोबाईलफोन आज दिनांक-04.01.2023 को संबन्धित आवेदकगणों को उन्हें सुपुर्द किया गया।

बरामद मोबाईलफोन-

- 1.रेडमी- 30
- 2.वीवो- 19
- 3.रियलमी- 16
- 4.ओप्पो- 14
- 5.सैमसंग- 10
- 6.इनफिनिक्स- 02
- 7.पोको- 03
- 8.टेक्नो- 01
- 9.अन्य- 06

चोरी की 06 मोटरसाइकिल के साथ एक शातिर गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय श्री धनंजय मिश्र के पर्यवेक्षण में थाना सरायलखंसी पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 03.01.2023 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान बकवल मोड़ पर नाबालिग द्वारा चलाये जा रहे मोटरसाइकिल को चेक किया गया तथा वाहन संदिग्ध पाये जाने पर उससे गाड़ी के कागजात के सम्बन्ध में पूछ-ताछ किया गया तो बताया कि यह गाड़ी चोरी की है जिसे मै थाना मरदह गाजीपुर क्षेत्र से चुराया था। मै इसे लेकर अपने पार्टनर सोनू कुमार पुत्र कल्पनाथ राम निवासी परदहां थाना कोतवाली नगर मऊ को देने जा रहा था जिसकी नरई बांध पर मो0सा0 सर्विसिंग की दुकान है जिसे मै गाड़ी चोरी कर दे देता हूं। जिस पर उक्त के साथ नरई बांध सोनू की दुकान पर पहुंचकर देखा गया तो वहां पर पांच अन्य मोटरसाइकिल खड़ी थी। जिसमे कुछ के नम्बर प्लेट नहीं थे एवं एक गाड़ी के नम्बर प्लेट पर लगे नम्बर से छेड़-छाड़ की गयी थी, के बारे में सोनू कुमार उपरोक्त बताया कि हम दोनो एक साथ शादी विवाह में वेटर का काम करते थे वहीं से हम दोनो की जान पहचान हुयी लेकिन वाहन चोरी, उसको छुपाने व नम्बर प्लेट बदलकर उसको बेचने का काम पिछले दो-तीन माह से कर रहे थे अभी मेरे पास सभी गाड़ियां मौजूद हैं कोई बिक नहीं पायी है। मै ग्राहक की तलाश में था किन्तु ग्राहक मिलने में समय लगता है इसलिए अभी सभी गाड़ियां मौजूद थी जिस पर सभी 06 गाड़ियों (04 स्लेंडर व 02 पैशन) को बरामद कर उक्त सोनू कुमार को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 006/2023 धारा 379,411,413,414,475,482,483 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया।